

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 नवम्बर 2010—कार्तिक 21, शक 1932

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कुछ नहीं

1841